



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० ३७०] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर १३, १९७६/कार्तिक २२, १८९८

No. 370] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1976/KARTIKA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th November 1976

G.S.R. 878(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 241/76-Central Excises, dated the 30th August, 1976, the Central Government hereby exempts woollen fabrics falling under Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
1. Unprocessed fabrics.		Nil
2. Processed fabrics—		
A. If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by an independent processor:		
(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton Cloth (made of shoddy yarn).	2.00 per cent <i>ad valorem</i> .	
(ii) Others.	2.50 per cent <i>ad valorem</i>	
B. If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by a composite mill.	4.00 per cent <i>ad valorem</i> .	
C. Others.	6.00 per cent <i>ad valorem</i> .	

Explanation.—For the purposes of this notification—

- (i) "independent processor" means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of woollen fabrics with the aid of power and who has no proprietary interest in any factory engaged in the spinning of woollen yarn or weaving of woollen fabrics.
- (ii) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in the spinning of woollen yarn—all sorts, or weaving or processing of woollen fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.
- (iii) "processed" means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam excluding the process of calendering with plain rollers.

[No. 274/76]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1976

सा० का० नि० 878 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 241/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 30 अगस्त, 1976 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की सब संख्या 21 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपायद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट ऊनी कपड़ों को, उन पर उद्गूहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उसके स्तंभ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
1	अप्रसंस्कृत कपड़े	कुछ नहीं
2	प्रसंस्कृत कपड़े—	
	क—यदि (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुना गया हो और स्वतंत्र प्रसंस्कृती द्वारा प्रसंस्कृत किया गया हो :—	
	(i) रद्दी कम्बल, ऊन और मैल्टन कपड़े (रद्दी सूत से तैयार) से बने कम्बल	2.00 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ii) अन्य	2.50 प्रतिशत मूल्यानुसार
	ख—यदि (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुना गया हो और संयुक्त मिल द्वारा प्रसंस्कृत किया गया हो	4.00 प्रतिशत मूल्यानुसार
	ग—अन्य	6.00 प्रतिशत मूल्यानुसार

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

- (i) 'स्वतंत्र प्रसंस्कृती' से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो विद्युत की सहायता से ऊनी कपड़ों के प्रसंस्करण में पूरी तरह से लगा हुआ है और जिसका सूत को कातने या कपड़े बुनने वाले किसी कारखाने में कोई भी साम्पात्तिक हित नहीं है ;
- (ii) 'संयुक्त मिल' से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो विद्युत की सहायता से सभी प्रकार के ऊनी सूत को कातने या ऊनी कपड़ों को बुनने या उनके प्रसंस्करण में लगा हो और जिसका इस प्रकार के विनिर्माण क्रियाकलापों में से कम से कम दो में साम्पात्तिक हित हो ;
- (iii) 'प्रसंस्कृत' से ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो सामान्यतः विद्युत या भाप की सहायता से की जाती हैं किन्तु इसमें सादा रोलरों से दबाने की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है।

[सं० 274/76]

G.S.R. 879(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 242/76-Central Excises, dated the 30th August, 1976, the Central Government hereby exempts woollen fabrics falling under Item No. 21 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (1) of the Table hereto annexed, from so much of the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

THE TABLE

Description	Duty
(1)	(2)
Processed fabrics—	
A. If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by an independent processor :	
(i) Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton Cloth (made of shoddy yarn).	2.00 per cent <i>ad valorem</i> .
(ii) Others.	2.50 per cent <i>ad valorem</i> .
B. If woven by a factory (other than a composite mill) and processed by a composite mill.	4.00 per cent <i>ad valorem</i> .

Explanation.—For the purposes of this notification—

- (i) "independent processor" means a manufacturer who is engaged exclusively in the processing of woollen fabrics with the aid of power and who has no proprietary interest in any factory engaged in the spinning of woollen yarn or weaving of woollen fabrics.
- (ii) "composite mill" means a manufacturer who is engaged in the spinning of woollen yarn—all sorts, or weaving or processing of woollen fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities.
- (iii) "processed" means all processes which are ordinarily carried on with the aid of power or steam excluding the process of calendering with plain rollers.

[No. 275/76]

N. OBHRAI, Under Secy.

सा० का० नि० 879 (अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 242/76-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 30 अगस्त, 1976 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 21 के अधीन आने वाले, और इससे उभावद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट ऊनी कपड़ों को उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

वर्णन	शुल्क
(1)	(2)

प्रसंस्कृत कपड़े—

क—यदि (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बना गया हो
और स्वतन्त्र प्रसंस्कर्ता द्वारा प्रसंस्कृत किया गया हो —

- (i) रदी कम्बल, ऊन और मेल्टन कपड़े (रदी सूत से तैयार) से बने कम्बल

2.00 प्रतिशत
मूल्यानुसार

(1)	(2)
(ii) अन्य	2. 50 प्रतिशत मूल्यानुसार
(ख)—यदि (संयुक्त मिल से भिन्न) कारखाने द्वारा बुना गया और संयुक्त मिल द्वारा प्रसंस्कृत किया गया हो।	4. 00 प्रतिशत मूल्यानुसार

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ :—

- (i) “स्वतन्त्र प्रसंस्कृती” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो विद्युत की सहायता से ऊनी कपड़ों के प्रसंस्करण में लगा हुआ है और जिसका ऊनी सूत को कातने या ऊनी कपड़े को बुनने वाले किसी कारखाने में कोई भी साम्प्रतिक हित नहीं है।
- (ii) “संयुक्त मिल” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो विद्युत की सहायता से सभी प्रकार के ऊनी सूत को कातने या ऊनी कपड़ों को बुनने या उनके प्रसंस्करण में लगा है और जिसका इस प्रकार के विनिर्माण क्रियाकलापों में से कम से कम दो में साम्प्रतिक हित है।
- (iii) “प्रसंस्कृत” से सभी ऐसी प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं जो सामयन्तः विद्युत या भाप की सहायता से की जाती है किन्तु इससे सादा रोलरों से दबाने की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है।

[सं० 275/76]

एन० श्रीबराय, अव्वर सचिव ।

